

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

11 फरवरी 2019

जामिया ने अप्लाइड आर्ट्स विभाग मुद्दे पर फैक्ट फाइन्डिंग कमेटी गठित की

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के अप्लाइड आर्ट्स विभाग के वर्तमान मुद्दे और समस्याओं को देखने के लिए एक फैक्ट फाइन्डिंग कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड एकिस्टिक्स, लाॅ, ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज, सोशल साइंसेज़ और एजुकेशन के छह विभागों के डीन शामिल हैं। कमेटी से आग्रह किया गया है कि वह दो हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप दे।

विश्वविद्यालय की इंटरनल कम्प्लेंट कमेटी: आईसीसी: ने भी कुछ छात्रों द्वारा पिछले सप्ताह की गई लिखित शिकायतों पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आईसीसी ने इस संबंध में पहली बैठक की और इस मामले में वह सभी संबंधित पक्षों से बात करेगी।

अप्लाइड आर्ट्स विभाग में अध्यापकों की कमी के बारे में गेस्ट टीचर से संबंधित चयन समिति ने आज बैठक की। चयनित अध्यापक बहुत जल्द ही विभाग में पढ़ाने का काम शुरू कर देंगे।

फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स की डीन प्रो नुज़हत काज़मी ने अप्लाइड आर्ट्स के कार्यकारी विभाग प्रमुख का पद भार संभाल लिया है। अप्लाइड आर्ट्स के विभाग प्रमुख डा हफीज़ अहमद को पिछले सप्ताह ही अवकाश पर भेज दिया गया है।

फाइन आर्ट्स विभाग के उन तीन छात्रों को दो सप्ताह के लिए पिछले हफ्ते निलंबित किया जा चुका है, जिनके खिलाफ विरोध प्रकट करने वाली छात्राओं ने शिकायत दर्ज कराई थी।

अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के साथ विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कई बार बातचीत की। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए सभी संभव क़दम उठाए जाएंगे। लेकिन लगता है कि विरोध कर रहे छात्रों को ऐसे वर्ग द्वारा उकसाया जा रहा है जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये वर्ग ऐसे निहित स्वार्थों से प्रभावित हैं जो विश्वविद्यालय के शांतिपूर्ण अकादमिक माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं।

विश्वविद्यालय के सामने पेश आ रही समस्याओं का समाधान करने में यहां का अध्यापकों एवं छात्रों का समुदाय पूरी तरह सक्षम है। निहित स्वार्थ से जुड़े तथा बाहरी तत्वों को सलाह दी जाती है कि वे जामिया के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करें।

जामिया प्रशासन एक बार फिर फाइन आर्ट्स विभाग के अपने सभी छात्रों से अपील करता है कि वे अपनी कक्षाओं में जाएं और बाहरी तत्वों के उकसावे में नहीं आएँ।

अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक

